

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 82]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 1968/फाल्गुन, 21, 1889

No. 82]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 1968/PHALGUNA 21, 1889

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 11th March 1968

S.O. 999.—In exercise of the powers conferred by clause 10(2) of the Exports (Control) Order, 1968 the Central Government hereby constitutes the following authorities for the purpose of hearing appeals against the action taken under clause 8 or 8A of the said Order, namely:—

Name of authority.

- | | |
|--|--|
| (i) where the action is taken by a Joint Chief Controller of Imports and Exports or by a Deputy Chief Controller of Imports and Exports; | The Chief Controller of Imports and Exports, New Delhi. |
| (ii) where the action is taken by an authority other than any authority referred to in (i) above. | A committee consisting of the Special Secretary and two Joint Secretaries to the Government of India in the Ministry of Commerce, New Delhi. |

(Issued from file No. 19/4/68--EII)

[No. 1/68-ETC]

S. RAMACHANDRAN, Jt. Secy.

